



### 1 नवम्बर से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 अक्टूबर, 2021) – सेवा विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा ट्रांज़िट सिस्टम, लोगों को सिटी में अच्छी तरह से गतिशील रख सकता है, 1 नवम्बर से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की सेवा में निम्नलिखित बदलाव किए जाएंगे।

#### 501 ज़ूम क्वीन (501 Zum Queen)

- कार्यदिवस को, ब्रैमली ट्रांज़िट टर्मिनल (Bramalea Transit Terminal) से सुबह 6:03 बजे, 6:13 बजे और 6:23 बजे चलने के लिए, सुबह की अतिरिक्त ईस्टबाउंड (पूर्व की ओर) ट्रिप्स शामिल की गई हैं।

#### 4/4A चिंग्कूज़ी (4/4A Chinguacousy)

- नॉर्थबाउंड (उत्तर की ओर) कार्यदिवस की देर शाम की फ्रीकवैसी को बढ़ाकर प्रत्येक 20 मिनट से प्रत्येक 15 मिनट तक कर दिया गया है
- कार्यदिवस को, ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल (Brampton Gateway Terminal) से रात 11:45 बजे, सुबह 12:00 बजे, 12:11 बजे, 12:15 बजे, 12:30 बजे, 12:45 बजे, 1:00 बजे, 1:15 बजे और 1:30 बजे चलने के लिए, देर रात की नॉर्थबाउंड ट्रिप्स शामिल की गई हैं

#### 5 बोवेअर्ड (5 Bovaird)

- सेवा विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए, शनिवार और रविवार की सेवा के शेड्यूलस में बदलाव किया गया है

#### 11 स्टील्स (11 Steeles)

- मैपल लॉज फार्म्स (Maple Lodge Farms) से दोपहर बाद 2:20 बजे की मौजूदा ईस्टबाउंड ट्रिप को बदलकर, दोपहर बाद 2:13 बजे, लिस्गर गो स्टेशन (Lisgar GO Station) से सेवा में शुरू किया जा रहा है

#### 18 डिक्सी (18 Dixie)

- कार्यदिवस को, ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल से सुबह 6:15 बजे, 7:26 बजे और 7:40 बजे चलने के लिए, सुबह की अतिरिक्त साउथबाउंड (दक्षिण की ओर) ट्रिप्स शामिल की गई हैं

#### 26 माउंट प्लैज़ेंट (26 Mount Pleasant)

- कार्यदिवस की देर शाम की घटी हुई सेवा बहाल की गई है
- कार्यदिवस को, माउंट प्लैज़ेंट विलेज स्टेशन (Mount Pleasant Village Station) से नॉर्थबाउंड डिपार्चर शामिल किए गए हैं – रात 8:10 बजे, 8:50 बजे, 9:30 बजे, 10:10 बजे और 10:50 बजे

- कार्यदिवस को, क्लॉकवर्क ड्राइव (Clockwork Dr.) और चिंगूजी रोड (Chinguacousy Rd) से साउथबाउंड डिपार्चर शामिल किए गए हैं – रात 8:27 बजे, 9:07 बजे, 9:47 बजे और 10:27 बजे

### कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

जैसे कि हम कोविड-19 (COVID-19) के प्रभावों से बाहर निकल रहे हैं, सवारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, बेहतर सेवा प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। हालांकि स्टे एट होम ऑर्डर समाप्त हो गया है, लेकिन कोविड-19 हमारी कम्युनिटी में अभी भी मौजूद है और हमारे लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के निर्देशों का पालन करते हुए, सावधान रहना आवश्यक है। सेवा प्रभावित हो सकती है और कुछ रूट कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए इस समय के दौरान हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं।

सफर करते समय, बसों और टर्मिनल्स पर टाइट-फिटिंग वाला मास्क पहनें और सफर के दौरान खाने या पीने के लिए अपना मास्क हटाने से परहेज करें, जब तक कि मेडिकल एमरजेंसी न हो। हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करके, अपने हाथ बार-बार धोकर और शारीरिक दूरी रखकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें।

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ, ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/COVID19](http://www.brampton.ca/COVID19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

#### मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)